

हिंदी दिवस समारोह- धीरुभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल



“हिंदी भाषा देश का गौरव” 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया गया था। हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए धीरुभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में 12 और 13 सितंबर को हिंदी समारोह मनाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकप्रिय गीतकार और पटकथा लेखक श्री प्रसून जोशी जी को आमंत्रित किया गया। समारोह में आई.सी.एस.ई., आई.जी.सी.एस.ई. और आई.बी. पाठ्यक्रम से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

12 सितंबर की सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ प्राथमिक कक्षा के नन्हे-मुन्ने नौनिहालों के संचालन और माध्यमिक कक्षा की छात्राओं के वंदे मातरम् के शास्त्रीय नृत्य द्वारा मातृभूमि की वंदना से हुआ। हिंदी की यात्रा पर एक लघु नाटिका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यार्थियों





द्वारा प्रस्तुत की गई । नाटक के पश्चात श्री भीमसेन जोशी जी के मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत के विविध भाषी रूपण द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की छात्राओं के शास्त्रीय नृत्य ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की छटा को सजीव बना दिया और अंत में कवि इकबाल द्वारा लिखित 'सारे जहाँ से अच्छा' गीत द्वारा कार्यक्रम का सफल समापन हुआ जिसने सभागृह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों

और शिक्षक वर्ग को राष्ट्रभक्ति और हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की भावना से सराबोर कर दिया।

तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री प्रसून जोशी जी के सफल व्यक्तित्व और उनकी सफलताओं का परिचय देने वाली संक्षिप्त डॉक्यूमेंटरी दिखाई गई जिसने यह साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों के कदम चुमें आसमां भी। श्री जोशी के प्रेरणादायी भाषण और विद्यार्थियों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र ने तो इस समारोह को चार चाँद लगा दिए। श्री जोशी ने कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

13 सितंबर को विद्यालय सभागृह में संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए फिर से उपरोक्त कार्यक्रम पेश किया और उसके बाद 3 सितंबर की वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजेता सदन जैगवार और लायन सदन के बीच प्रतियोगिता का अंतिम दौर आयोजित हुआ। जैगवार सदन को विजेता और मैथिली(कक्षा 12वीं) को श्रेष्ठ वक्ता घोषित किया गया।

